Date: September 03, 2025

To,
The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 544199 Scrip ID: GEMENVIRO

**Subject: Newspaper publication** 

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the SEBI read together with other previous circulars issued by MCA & SEBI in this regard, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisements published today i.e., September 03, 2025, for the attention of the Equity Shareholders of the Company intimating that the 12<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, September 29, 2025 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conferencing("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in the following newspapers:

- 1. Financial Express All Editions in English Language
- 2. Jansatta All Editions in Hindi Language

This information will also be hosted on the website of the Company at https://gemrecycling.com/.

Kindly take the same on your record and bring notice to all the concerned.

For GEM Enviro Management Limited

Tripti Goyal

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Membership No.: ACS73180

Encl: as above

**GEM ENVIRO MANAGEMENT LIMITED** 

Reg. Office: Unit no.203, Plaza- 3, Central Square, Bara Hindu Rao, Delhi- 110006, Ph. No. 011-49068377 Email: info@gemrecycling.com, Web: www.gemrecycling.com, CIN No.: L93000DL2013PLC247767



**FINANCIAL EXPRESS** 

#### GEM ENVIRO MANAGEMENT LIMITED (Formerly Known as GEM Enviro Management Private Limited)

CIN: L93000DL2013PLC247767 Regd. Office: Unit No. 203, Plaza 3, Central Square, Bara Hindu Rao, Delhi -110006 E-mail: info@gemrecycling.com; Website: www.gemrecycling.com; Tel. No: 011-49068377

12™ ANNUAL GENERAL MEETING OF GEM ENVIRO MANAGEMENT LIMITED Notice is hereby given that the 12" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of GEM Enviro Management Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, September 29, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of the 12" AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other previous circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and the applicable provisions of SEBI Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing" Regulations") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with the other previous circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without the physical presence of Members at common venue.

The Notice of the 12" AGM along with the Annual Report for FY 2024-25 will be sent by electronic mode to those members whose names appear in the Company's Register of Members as at the closing hours of business on Friday, August 29, 2025 and whose email addresses are registered with the Company/ Skyline Financial Services Private Limited "Skyline"), Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/Depository Participants (DPs), As all shares of the Company are held in dematerialized form, members are requested to update/ register their email addresses, bank account details and mobile numbers with their espective DPs.

Pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a physical communication will be sent to those members whose email IDs are not registered, containing the web-link and exact path of the Company's website from where the Annual report can be accessed. The physical copy of the Notice of 12" AGM along with the Annual Report for FY 2024-25 shall be sent to those members who request for the same at investors@gemrecycling.com mentioning their Names, PAN No., DP ID and Client ID, Address and Contact details. The same will also be available on the websites of the Company at https://gemrecycling.com/, BSE Limited at www.bseindia.com, and Central Depository Services (India) Limited "CDSL") at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from

Tuesday, September 23, 2025 to Monday, September 29, 2025 (both days inclusive). Members will be provided with the e-voting facility whose names appear on the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on Monday, September 22, 2025 to cast their votes electronically on the businesses as set out in the Notice of 12" AGM, through remote evoting or e-voting at the AGM through CDSL platform. The remote e-voting period will begin on September 26, 2025 at 09:00 A.M. (IST) and will end on September 28, 2025 at 05:00 P.M. (IST). The detailed procedure for e-voting and participation in the AGM through VC/ OAVM will be provided in the Notes to the Notice of AGM for members holding shares in dematerialized mode, physical form or who have not registered their e-mail ld.

Further, notice is also given that record date will be Monday, September 22, 2025, for the purpose of determining the entitlement of the members to receive Final Dividend for the inancial year 2024-25, subject to the approval of the members at the AGM. As all shares of the Company are held in dematerialized form, members who wish to add, update or correct their bank account details are requested to inform their respective DPs directly. Members are also advised to ensure that their IFSC and MICR Code of their bank account are correctly updated with their DPs. The Company's RTA can use only the bank details provided by the Depositories while processing dividend payments.

For GEM Enviro Management Limited Tripti Goyal

ICSI M. No.: ACS73180

Company Secretary & Compliance Officer

Date: September 02, 2025 Place : Delhi



#### BHARAT DYNAMICS LIMITED (A Govt, of India Enterprise, Ministry of Defence)

CIN:- L24292TG1970GOI001353 Corporate Office: Plot No. 38-39, TSFC Building, Financial District, Gachibowli, Hyderabad-500032 Registered Office: Kanchanbagh, Hyderabad-500058 Tel: 040-23456145; Fax: 040-23456110 E-mail: investors@bdl-india.in: Website: https://bdl-india.in

### NOTICE OF 55" ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE FOR PAYMENT OF FINAL **DIVIDEND 2024-25 & E-VOTING**

Notice is hereby given that 55" Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Bharat Dynamics Limited ("Company") will be held through Video Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, 26" September, 2025 at 3:00 PM (IST) to transact the businesses as set out in the Notice convening the meeting ("the Notice"). In compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its latest Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133, dated October 3, 2024, the Company has sent Notice of the AGM and Annual Report 2024-25 on 02 September 2025, through electronic mode only to those members who have registered their e-mail addresses with the RTA /Depository Participants ("DP"). These documents are also available on Company's website https://bdlindia.in and on website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE" www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited "NSE") www.nseindia.com.

In accordance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Secretarial Standard -2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (LODR) 2015 (as amended), members holding shares in physical or dematerialized form, as on cut-off date i.e. Friday, 19 September 2025 may cast their vote electronically on the business as set out in the 55" AGM Notice through e-voting platform of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the 55" AGM Notice. In this regard, the members are hereby further notified that:

- a) Remote e-voting through electronic means shall commence from Monday, 22 September 2025 (09:00 AM) and end on Thursday, 25 September 2025 (05:00 PM). The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Friday, 19 September 2025. Please refer to the notice of AGM with regard to instructions for e-voting.
- b) Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote evoting and otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The detailed instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM
- Members holding shares in the demat mode should update their email addresses and Bank mandates directly with their respective Depository Participants and with the company/RTA in case the shares are held by them in the physical form.
- d) Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after the Company sends the Notice of the 55" AGM by email and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday, 19 September 2025 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com.
- e) Register of Members and the share transfer registers of the company shall remain closed from Saturday, 20 September 2025 to Friday, 26 September 2025 (both days inclusive), for the purpose of 55" AGM and to determine the entitlement of final dividend of ₹0.65/- per share (Face Value ₹5), if so approved by the members at the aforesaid AGM. The dividend, if declared by the Members at the AGM will be paid within 30 days from the date of declaration to those persons.
  - . Whose names appear as beneficial owners at the end of the business hours on Friday, 19 September 2025 in the list of beneficial owners to be furnished by NSDL and CDSL in respect of the shares held in electronic form; and
  - Whose names appear as members in the Register of members of the company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the company /Registrar and Share Transfer Agents on or before Friday, 19 September 2025.
- f) Pursuant to the changes introduced by the Finance Act, 2020 in the Income-tax Act, 1961 (the" IT Act") w.e.f April 1, 2020 the dividend paid or distributed by a company shall be taxable in the hands of the shareholders. Accordingly, in compliance with the said provisions, the company shall make the payment of dividend after necessary deduction of tax at source (TDS). The withholding tax rates would vary depending on the residential status of every shareholders and the eligible documents submitted by them and accepted by the company. Members are hereby requested to refer to the IT Act and the Notice in this regard. In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to update the details like Residential status, PAN and category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical mode, with the company / the RTA.
- g) Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending email to investors@bdl-india.in between Monday, 22 September 2025 to Wednesday, 24 September 2025 mentioning their name, folio number/demat account number, email address, mobile number and queries/questions. Only such questions/ queries received by the company till the said date shall be considered and responded. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, depending on the availability of time for the AGM.

For Bharat Dynamics Limited N. Nagaraja Place: Hyderabad Company Secretary Date: 03.09.2025

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE. PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

## **PUBLIC ANNOUNCEMENT**



(Please scan this QR Code to view the Draft Red Herring Prospectus)



# **UKB ELECTRONICS LIMITED**

Our Company was originally incorporated as "U K B Electronics Private Limited" at New Delhi as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated May 7, 2004 issued by the RoC. Pursuant to a board resolution dated April 22, 2024 and a special resolution passed by the shareholders dated May 10, 2024, the name of our Company was changed to "UKB Electronics Private Limited" and a fresh certificate of incorporation issued by the RoC on July 15, 2024. Thereafter, pursuant to a board resolution dated March 4, 2025 and a special resolution passed by the shareholders dated March 26, 2025, our Company was converted from a private limited company to a public limited company and the name of our Company was changed to 'UKB Electronics Limited' and a fresh certificate of incorporation dated April 21, 2025 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For further details relating to the changes in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters - Brief history of our Company" and "History and Certain Corporate Matters - Changes in the reaistered office of our Company" on page 308 of the draft red herring prospectus dated September 1, 2025 ("DRHP" or "Draft Red Herring Prospectus").

Corporate Identity Number: U32109DL2004PLC438048

Registered Office: C-102, Ground Floor, Anand Vihar, East Delhi 110 092, Delhi, India | Corporate Office: C-14, Sector 67, Gautam Buddha Nagar, Noida 201 301, Uttar Pradesh, India Contact Person: Ranjeet Singh, Company Secretary and Compliance Officer, Tel: +91 12 0420 8515 | E-mail: investor.relations@ukbindia.com | Website: www.ukbelectronics.com

### OUR PROMOTERS: MANOJ TAYAL, VINAY KUMAR TAYAL, MANIK TAYAL AND PRADEEP KUMAR TAYAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH ("EQUITY SHARES") OF UKB ELECTRONICS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹2 EACH (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹8,000 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹4,000 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹4,000 MILLION COMPRISING UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹1,350 MILLION BY MANOJ TAYAL, UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹1,350 MILLION BY VINAY KUMAR TAYAL AND UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2 EACH AGGREGATING UP TO ₹1,300 MILLION BY MANIK TAYAL (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH OFFER BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE").

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER AN ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES, AGGREGATING UP TO ₹800 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PREIPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. UPON ALLOTMENT OF EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, WE MAY UTILISE THE PROCEEDS FROM SUCH PRE-IPO PLACEMENT TOWARDS THE OBJECTS PRIOR TO COMPLETION OF THE OFFER. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER, OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND PROSPECTUS. OUR COMPANY SHALL REPORT ANY PRE-IPO PLACEMENT TO THE STOCK EXCHANGES, WITHIN 24 HOURS OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT (IN PART OR IN ENTIRETY).

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹2 EACH, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY MAY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY OFFER A DISCOUNT OF ₹[●] ON THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹2 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [.] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company in consultation with the BRLMs, may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and Sponsor Banks, as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR"), read with Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Category"), provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion). Investor Portion) (the "Net QIB Category"). Further, 5% of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors ("NIIs") ("Non-Institutional Category"), of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹200,000 and two-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹1,000,000 and under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors ("RIIs") ("Retail Category"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID in case of UPI Bidders (defined hereinafter)) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" beginning on page 480 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the SEBI and the Stock Exchanges on September 1, 2025. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI has been made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of publication of public announcement by hosting it on the website of the Company at www.ukbelectronics.com, website of the SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com, respectively and the websites of the BRLMs, i.e., Motilal Oswal Investment Advisors Limited and IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited) at www.motilaloswalgroup.com and www.iiflcap.com, respectively. Our Company hereby invites the public to give comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of their comments to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below in relation to the Offer. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs in relation to the Offer at their respective addresses mentioned below on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the date of publication of this public announcement.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 34 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the red herring prospectus" or "RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the mainboard of BSE and NSE.

For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, please see the section "Capital Structure" on page 93 of the DRHP. The liability of members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section "History and Certain Corporate Matters" on page 308 of the DRHP.







**REGISTRAR TO THE OFFER** 

**Motilal Oswal Investment Advisors Limited** Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 7193 4380 E-mail: ukbelectronics.ipo@motilaloswal.com

SEBI registration number: INM000011005

Investor grievance e-mail: moiaplredressal@motilaloswal.com Contact person: Ronak Shah/ Sukant Goel Website: www.motilaloswalgroup.com

**IIFL Capital Services Limited** (formerly known as IIFL Securities Limited) 24th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4646 4728 E-mail: ukbelectronics.ipo@iiflcap.com Investor grievance e-mail:ig.ib@iiflcap.com Contact person: Anui Damani / Pawan Jain Website: www.iiflcap.com SEBI registration number: INM000010940

**KFin Technologies Limited** Selenium, Tower-B, Plot No. 31 and 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad 500 032, Telangana, India **Tel:** +91 40 6716 2222 E-mail: ukbelectronics.ipo@kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Contact person: M. Murali Krishna Website: www.kfintech.com SEBI registration number: INR000000221

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

**BOOK RUNNING LEAD MANAGERS** 

For **UKB ELECTRONICS LIMITED** on and behalf of the Board of Directors Ranieet Singh Company Secretary and Compliance Officer

Date: September 2, 2025 Place: Delhi

**UKB Electronics Limited** is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issuance of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges on September 1, 2025. The DRHP is available on the website of the Company at www.ukbelectronics.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e., Motilal Oswal Investment Advisors Limited and IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited) at www.motilaloswalgroup.com and www.iiflcap.com, respectively and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia. com and www.bseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section entitled "Risk Factors" on page 34 of the DRHP and the details as will be set out in the RHP, when filed. Any potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws in the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside of the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Adfactors


EXPRESS GROUP



THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS

KNOWLEDGE

**♦ FINANCIAL EXPRESS** 



New Delhi



Unity Small Finance Bank Limited

भौतिक कब्जा सुचना (अचल संपत्तियों के लिए) नियम 8(1) देखें

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **युनिटी स्मॉल फाइनेंस** 

**बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित दिनांक को मांग सूचना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को उक्त सूचना की

प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर राशि

चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव एतदद्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता

ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त

अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर विशेष

रूप से और आम जनता को एतदद्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन

नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए **यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर का ध्यान

सरक्षित परिसंपत्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

बंधककृत संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का विवरण : अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, पूर्वमुखी 125.66 वर्ग गज या 105.

06 वर्ग मीटर माप का मकान, जो आबादी पटेल नगर, भूड़ खतौली, परगना और तहसील खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है, जिसकी

सीमाएं बिक्री विलेख दिनांक 02.03.2013 के अनुसार नीचे दी गई हैं:- सीमाएं (बंधक विलेख के अनुसार):- **पूर्व** : 26 फीट / रास्ता 12 फीट

चौड़ा, **पश्चिम :** 26 फीट / श्रीमती परमजीत कौर और अन्य का मकान, **उत्तर :** 43 फीट 6 इंच / रघुनंदन भारद्वाज का प्लॉट, **दक्षिण :** 43

पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074-7, मृत्यूट सेंटर, पुन्नेन गेड, विषयनलपुरम-695 034, सीआर्यूप संस्थाः

मींग स्चनी विश्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12(2) के तहत

र्वसा कि अयोहस्ताक्षरी वितीय आरितामें के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मुख्ट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी (''एमएचएफसीएल''

का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निथम, 2002 के निथम 3 के साथ पंडित कथित अधिनियम की पारा 13(12) के तहत प्रदत्त प्रक्तियों के उपयोग र

निम्मलिखित कर्णदार(रॉ), सह-कर्णदार(रॉ), जमान्ती(यॉ) से उन्हें निर्णत सम्बन्धित सुचनाओं जिन्हें उपर्युक्त के सम्बन्ध में नीचे भी दिया गया है, की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग

हचनाओं में उस्लिखिन राशि तथा अद्यतन व्याज, लागन एवं प्रधार अदा करने को कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मींग सचनाएँ निर्गत की हैं जो अप पर नीचे

वर्णित के अनुसार वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित है। ऋग के बकामा पुनर्पुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों), खंड-कर्जदार(रों), जमानती(मों) हारा

की तिथि

०२ अगस्त,

प्रतिभृत आस्ति। यो )/अधल संपत्ति। का विवरण: संपत्ति का समस्त भाग, आवासीय घर, खसरानों का हिस्सा, 2074, वार्ड संख्या, 20, गांव तिजारा, तहसील विजारा, जिला अलवर राजस्थान - 301411 क्षेत्रफल 522.28 वर्ग गज, माप: उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम - 88.6" फीट, दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम - 82.09"

प्रतिभूत आस्त्रि यो )/अञ्चल संपत्ति यो ) का विवरण: पड़ा संख्या 25, वही संख्या 165, पंजीकरण संख्या 7998 की आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, दिनांक

15.02.2022, ग्राम पंचायत मेजन, पंचायत सामिति मंडल, जिला भीलवाडा, राजस्थान - 311403, क्षेत्रफल 2200 वर्ग फुट, मापः उत्तरी और - 110'' फुट, दक्षिणी और

प्रतिभत आस्ति थों )/अचल संपत्ति थों ) का विवरण: पड़ा संख्या 33. खसरा संख्या 809 पर संपत्ति का समस्त भाग, ग्राम पंचायत ललांस, पंचायत समिति, शाह पुरा, गाँव चलानिया, तहसील-शाहपुरा, जिला- भीलवाडा, राजस्थान-311404 में स्थित, क्षेत्रफल 2550 वर्ग फुट, संपत्ति राधादेवी के स्थामित्व में, भापः उत्तरी ओर-

2025

प्रतिभूत आस्ति, यों )/अधल संपंत्रि, यों ) का विवरण: आवासीय संपत्ति पदा संख्या 18 का समस्त भाग, वही संख्या 36, पंजीकरण संख्या 106, दिनांक 01.09.2021. ग्राम अकोला खुदं में स्थित, ग्राम पंचायत करेडिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तींडगढ, राजस्थान-312602, क्षेत्रफल 810 वर्ग फट, मापः उत्तरी ओर -30" फीट, दक्षिणी

प्रतिभव आस्ति। यो )/अधल संपत्ति यो ) का विवरण: आवासीय संपत्ति पद्म संख्या 02 का समस्त भाग, वही संख्या 57, आराजी नंबर, 368, ग्राम उंदरी, ग्राम पंचायत

अमरपुरा, तहसील - चस्सी, जिला - चित्तीडगढ, राजस्थान - 312022, क्षेत्रफल 588 वर्ग फीट, मापः उत्तरी ओर- 49" फीट, दक्षिणी ओर - 49" फीट, पूर्वी ओर

सीमाएँ: पूर्वः शिव लाल / जय राज धाकेड का मकान, पश्चिमः आम सरता, उत्तरः प्यारचंद / गोपी लाल धाकेड का मकान, दक्षिणः भेरू लाल / गोपी लाल धाकेड का मकान

प्रतिभूत आस्ति भो)/अधार संपक्ति थो) का विवरण: आवासीय पर्नाट संख्या 04 का समस्त भाग, थोजना "बी गणेश विहार चतुर्थ", गांव अकेरा, डांग्र, तहसील, आमेर

प्रतिभूत आस्ति थीं)/अध्यत संपीत थीं) का विवस्ण: खसरा संख्या 286, 287, 288, 289, 290, 550/1657, 773, 775, 776 पर आवासीय संपीत प्लॉट का समस्त

भाग, गाँव मंधा भिंडा, तहसील चोम, जयपर, राजस्थान, क्षेत्रफल 725 वर्गे गज, मापः उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम - 150 फीट, दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम - 150 फीट,

प्रतिभाग आस्ति थें )/अधस्य संपत्ति थें ) का विवरण: आवासीय पदा संख्या 83, यही संख्या 56 का समस्त भाग, गाँव पतली, ग्राम पंचायत करूवाण पूरा, खर्द, तहसील

प्रतिभत आस्त्रि थो)/अञ्चल संपक्ति थो) का विवश्णः पदा संख्या ३६ में आवासीय घर का समस्त भाग, यही क्रमांक ४३, ग्राम माताजी का खेडा, ग्राम पंचायत किञ्जनगढ पंचायत समिति कोटडी, तहसील कोटडी, जिला–मीलवाडा, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 720 वर्ग फीट, माप: उत्तरी ओर-18'' फुट, दक्षिणी ओर-18'' फुट, पुर्वी ओर-40'

प्रतिभूत आस्त्रि चो)/अचल संपत्ति चो) का विवरण: पदा संख्या 38, यही संख्या 238 पर संपत्ति का समस्त भाग, ग्राम पंचायत मेजा, पंचायत समिति, मंडल, गांव, मेजा,

शहरशेल भीलवाडा, जिला - भीलवाडा, राजस्थान - 311403 में स्थित, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट, माप: उत्तरी ओर - 30" फीट, दक्षिणी ओर - 30" फीट, पूर्वी ओर

प्रतिभत आस्ति यो )/अधाल संपक्षि यो ) का विवरण: आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, पद्म संख्या 31, वहीं संख्या 24, ग्राम वस्सी, ग्राम पंचायत-वस्सी, पंचायत समिति-

प्रतिभव आस्ति थों)/अधल संपंत्रि थों) का विवस्ण: संपंति का समस्त भाग पट्टा संख्या 300, वहीं संख्या 05, गाँव चमन पूरा कॉलोनी, ग्राम पंचायत- डिटोली, पंचायत

प्रतिभूत आस्ति(यों)/असल संपत्ति(यों) का विवरण: संपत्ति का समस्त भाग पड़ा संख्या 4041, यही संख्या 80, ग्राम मान्यास, ग्राम पंचायत - सांखली, पंचायत समिति

प्रतिभुत आरिक को ) अचल संपन्ति भों ) कर किवरण: आवासीय संपत्ति पद्म संख्या 107 का समस्त भाग, वही संख्या 26, आराजी संख्या 1084, प्राम विखेर, प्राम पंचायत विकेर, तहसील बेगुन, जिला- विचीडगढ़, राजस्थान, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, भाष: उसरी ओर - 18'' फुट, दक्षिणी ओर - 18'' फुट, पूर्वी ओर - 50'' फुट, पश्चिमी ओर

प्रतिभूत आस्त्रि चो )/अचल संपन्ति चो ) का विवरण: आवासीय संपत्ति का समस्य भाग पदा संख्या ३०, आराजी संख्या १८६, ध्राम सम्बद्धिया, ग्राम पंचायत सम्बद्धिया

प्रतिभूत आस्ति(यों)/अधस्त संपत्ति(यों) का विधरण: भूमि पर आवासीय भवन का समस्त भाग, आराजा संख्या 963/2, राजस्व गांव सांगठ खुदं, तहसील और जिला -

सीमाएँ: पूर्व:- लीलाधर का मकान पश्चिम:- सार्वजनिक सहक उत्तरः शिवलाल पुत्र गोकल सालवी का मकान दक्षिण: गली और उसके बाद हीरालाल सालवी का बाहा

यदि कथित कर्जदार, सह-कर्जदार एवं जमानती उपर्युक्त के अनुसार एमएचएफसीएल को भूगतान करने में असफल रहते हैं तो एमएचएफसीएल उपर्युक्त

प्रतिभत आस्ति का कथ्जा लेने तथा कर्जदारों को पूर्ण जोखिय, लागत एवं परिणामों पर कानून के अनुसार कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य कार्यवाहियों को

तहसील थिभीड़गढ़, जिला थिभीड़गढ़, राजस्थान, क्षेत्रफल 250 वर्ग फुट, सीमाएँ: पूर्वः संयुक्त सहक, पश्चिमः कोंकु बाई, उत्तरः वंसीलाल, दक्षिणः वंसीलाल

- रश्भि, तहसील – रश्भि, जिला – चित्तीहमद, राजस्थान, क्षेत्रफल 2016 वर्ग फुट, मापः पूर्व से पश्चिम की ओर – 48 फुट, उसर से दक्षिण की ओर – 42 फुट

कोटपुतली, जिला, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 59.05 वर्ग गज, माप: उत्तर की ओर पूर्व से पश्चिम -10.6.11 फीट दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम -10.6.11 फीट पूर्व की

०८ अगस्त,

०८ अगस्त,

०८ अगस्य,

U65922KL2010PLC025624, कॉवॉस्ट करबॉलय : 12/ए, 01, 13वी मंत्रिल, प्रीश्री क्रीसेंडो, फॉट घे. सी३६ एवं मी३०, बाजा कर्ला

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

कॉम्पलेक्स-जी क्लॉक (पूर्व), मुम्बर्व-400051, दूरभाष: 022-62728517,

29 जुलाई,

29 जुलाई,

2025

29 जुलाई,

2025

12 अगस्त,

2025

12 अगस्त,

2025

12 अगस्य

12 अगस्त,

सीमाएँ पूर्वः - गोपाल बैरवा की संपत्ति, पश्चिमः - बाल बैरवा की संपत्ति, उत्तरः लाह बैरवा की संपत्ति, आरडब्ल्यू, दक्षिणः आम सस्ता

12 अधारत.

2025

80" फीट, पश्चिमी ओर - 80" फीट, सीमाएँ: पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क, उत्तर: देवी लाल सुधार की संपत्ति, दक्षिण: रामपाल तेली की संपत्ति

12 अगस्त,

2025

- 50'' फुट, सीमाएँ: पुर्व: लाभ चंद माली का मकान, पश्चिम: सत्थनाराष्ट्रण गुजेर का मकान, उत्तर: कॉमन हेन, दक्षिण: आम रास्ता

12 अगस्य,

१२ अगस्त.

सीमाएँ पर्व:- पड़त भिर्म पश्चिम:- सड़क उत्तर: बाब उस्ताद की सड़क और मकान दक्षिण: रतन लाल खटीक का मकान

सीमाएँ: पर्व: उदयराम का मकान पश्चिम: अंकर लाल जाटिया का मकान उत्तर: रोड दक्षिण: श्याम लाल का मकान

सीमाएँ:: पूर्व: माताजी का रथान पश्चिम: कृषि भूमि उत्तर: आम रास्ता दक्षिण: सोहन लाल/बालु हरिजन

14 अर्था खाता संख्या MHFLCONCTG000005005508 12 आगस्त,

ई-मेल आईडी : authorised officer a muthoot.com

कॉर्पोरेट कार्यालय: सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताकून (पूर्व) मुंबई- 400 098

मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि

मांग सूचना तिथि 12/06/2024

रु. 47,41,886.92 / −

(रुपये सैंतालीस लाख इकतालिस हजार आठ सौ छियासी तथा बयानबे

पैसे मात्र) 10 / 06 / 2024 के अनुसार साथ में लागू

ब्याज और अन्य शुल्क।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी- यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कुल बकावा राशि (क.) भावी प्रयोज्य ब्याज

02 अगस्त 2025 तक रु. 8,89,391.50/- (रुपए आठ लाख नवासी

31 जुलाई 2025 तक रू. 17,22,247.00/- (रुपए संप्रह लाख वाईस

हजार दो सौ सैतालीस मात्र) और रु. 4,61,273.23/- (रुपए चार

लाख इकसठ हजार दो सौ तिहत्तर तथा तेईस पैसे मात्र)

02 अगस्त, 31 जलाई 2025 तक रु. 7,51,851,92/- (रुपए सात लाख इक्यायन

हजार आह सौ इक्यावन तथा बानचे पैसे माप्र) और रू. 41.310.30/

31 जुलाई 2025 तक रु. 3,94,660.56/- (रूपए तीन लाख चौरानवे

11 अगस्त 2025 तक रू. 10,97,800,79/- (रूपए दस लाख सत्तानवे

11 अगस्य 2025 तक रू. 10.71.194.18/- ( रूपए दस साख इकहसर

11 अगस्त 2025 तक रू. 5.29,278,57/- (रुपए पाँच लाख उनतीस

11 अगस्त 2025 तक है, 5,44,688,43/- (रूपए पाँच लाख

11 अगस्त 2025 सक रु. 5,36,511.98/- (रुपए पाँच लाख छत्तीस

हजार पाँच सी ग्यारह तथा अद्वानवे पैसे मात्र) और रु.

11 अगस्त 2025 तक रु. 10,09,437.86/- (रुपए दस लाख भी हजार

हजार एक सौ नब्बे तथा उनतीस पैसे मात्र) और रु. 3,18,976.43/

11 अगरत 2025 तक 4,40,898.24/- (रूपए चार लाख चालीस

हजार आठ सी अद्भानवे तथा चीबीस पैसे भात्र) और रु

०८ अगस्त्र, 11 अगस्त २०२५ तक र. 6,34,978.09/- (रुपए छह साक्ष भौतीस

हजार भी सी अद्वहत्तर और भी पैसे मात्र)

हजार एक सी पैतीस तथा सोलह पैसे मात्र)

08 अगस्त, 11 अगस्त 2025 तक रु. 5,00,043.33/- (रुपए पाँच लाख तैंतालीस

तथा तैतीस पैसे मात्र)

10,96,174,15/- (रुपए दस लाख छियानवे हजार एक सौ चीहत्तर

11 अगस्त 2025 तक र. 7,63,135.16/- (रुपए सात लाख तिरसंड

(रुपए तीन लाख अठारह हजार नौ सौ छिहत्तर तथा तैतालीस पैसे

चार सौ सैतीस तथा छिधासी पैसे भाव)

०८ अगस्त्र, | 11 अगस्त २०२५ तक रु. २,५१,१९०.२९/- (रुपए दो लाख इक्यावन

1,89,101.88/- (रुपए एक लाख नवासी हजार एक सौ एक तथा

चौवालीस हजार छह सौ अझसी तथा तैतालीस पैसे मात्र)

हजार छह सौ साठ तथा छप्पन पैसे मात्र)

29 जुलाई, 02 अगस्त, 31 जुलाई 2025 तक रु. 4,61,958.23/- (रुपए चार लाख इकसट

हजार नी सी अद्भवन तथा तेईस पैसे माप्र)

हजार आठ सी तथा उन्यासी पैसे माप्र)

हजार एक सी चौरानवे तथा अठारह पैसे मात्र)

हजार दो सौ अठहसर तथा सम्रावन पैसे मात्र)

(रुपए इक्शालिस हजार तीन सी दस तथा तीस पैसे मात्र)

हजार तीन सौ इक्यानये तथा पंचास पैसे मात्र)

# UNITY

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों का नाम और ऋण खाता संख्या

ऋण खाता संख्या :- USFBDELLOAN000005012732

फीट 6 इंच / आबाद और सलीम का प्लॉट।

एमएचएफसीएल के पास निम्नलिखित प्रतिभृत आस्ति(थीं) को चंधक रखा गथा है।

फीट, पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण - 59.06" फीट, पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण - 53" फीट

सीमाएँ: पर्य – आस मोहम्मद की जमीन, पश्चिम:– आम सस्ता, उत्तर: आस मोहम्मद की जमीन, दक्षिण: नव्यी का घर

सीमाएँ: पुर्व:- स्वर्ध की भूमि, पश्चिम:- आम रास्ता, उत्तर: भीमराज गाडरी का मकान, दक्षिण: बाबू लाल गाडरी का मकान

सीमाएँ: पर्व: श्री पीस प्रजापत की संपत्ति, पश्चिम: श्री काल प्रजापत की संपत्ति, उत्तर: स्वयं की कषि भूमि, टक्षिण: आम रास्ता

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम / लैन

ऋण खाता संदेश MHFLPROALW000005018646

ऋग खाला संख्या MHFLCONBHW000005011431

- 110'' फुट, पूर्वी ओर- 20'' फुट, पश्चिम ओर- 20'' फुट

30" फट, दक्षिणी ओर-30" फट, पूर्वी ओर-85" फट, पश्चिमी ओर-85" फट

सीमाएँ: पुर्व:-आम रास्ता पश्चिम: नारानी खाई का घर उत्तर: पप्प खान का घर दक्षिण: आम रास्ता

जिला, जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, माप: पूर्व से पक्षिम - 45 फीट उत्तर से दक्षिण - 20 फीट

सीमाएँ: पूर्व - अन्य की भूमि पश्चिम - 30 फीट चौडी सहक उत्तर: प्लॉट संख्या 5 दक्षिण: प्लॉट संख्या 3

सीमाएँ पुर्वः -25 फीट, सहक पश्चिम - स्वयं की भूमि, उत्तरः लक्ष्मी नारायण का घर, दक्षिणः 20 फीट कॉमन वे

सीमाएँ: पर्यः- समन का घर पश्चिमः- संतोष और रास्ता का घर उत्तर: समन और उमराव का घर, दक्षिण: जनता

पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण - 43.5 फीट, पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण - 43.5 फीट

ओर उत्तर से दक्षिण - 17.6, 30 फीट पश्चिमी ओर उत्तर से दक्षिण -17.6, 30 फीट

3 भूग खाला संख्या MHFLREFBHW000005001728

महावीर कुम्हार 2. राधा देवी उर्फ राधा कुम्हार

ऋण खाता संख्या MHFLPROCTG000005000675

ओर-30" फीट, पूर्वी ओर-27" फीट, पश्चिमी ओर-27" फीट

ऋण खाता संख्या MHFLREFCTG000005008098

ऋग रक्षात संख्या MHFLPURJP2000005010648

ऋण खाता संख्या MHFLPROJP2000005011616

ऋण खाता संख्या MHFLPROSHA000005009153

ऋग रक्षत संख्या MHFLCONBHW000005004583

ऋग खासा संख्या १३३९००८३६८४ एवं १३३९०११२१४१

ऋण खाता संख्या MHFLPROCTG000005010055

चित्ताँडगढ्, तहसील-चित्तीडगढ्, जिला - चित्तीडगढ्, राजस्थान, क्षेत्रफल 1232 वर्ग फीट

समिति- रश्भि, तहसील- रश्भि, जिला- चित्तीडगढ, राजस्थान, क्षेत्रफल 1235 वर्ग फुट

. पैरू लाल उप्पं पैरू लाल खटीक 2. पिंट खटीक

12 ऋण रक्षाता संख्या MHFLCONCTG000005008840 एवं MHFLPROCTG000005009721

ऋण खाला संख्या MHFLPROCTG000005011441

15 ज्ञिण खाता संख्या MHFLREFCTG000005001764

16 मिला रक्षामा सांख्या MHFLPRORJS000005013604

राजसमंद, राजस्थान, क्षेत्रफल 1555.20 वर्ग फीट,

रतन लाल अहीर 2, रोशी अहीर

1. हरीश सालवी 2. कमला सालवी

3. किशना उर्फ किशन लाल 4. भगवानी बाई

सथा MHFLREFCTG000005006866

3. श्थाम लाल खटीक 4, कल्थाणी बाई

. देवीलाल गाडरी 2. पन्ना लाल गाडरी

3. रंगलाल गाहरी 4. कथली बाई गाहरी

. भरत लाल धाकेड 2. रेखा धाकेड

12" फीट, पश्चिमी ओर - 12" फीट

अजय चौधरी 2. शोभा

2. लाल चंद्र उर्फ लाल चंद्र थादव

1 सीता देवी

1. होशियार

ा. दुर्गा लाल

2. मंजू देवी

. किशन लाल

2. पप्पड़ी बैरवा

. प्रहाद नकवाल

, प्रसन्न मंजूल बजाइ

2. भारती

2. कस्तुर चंद

3. छोटी करतुर

सोनिया देवी

फुट, पश्चिमी ओर-40" फट

1,कमलेश कमार शंकर लाल तेली

2. सनीता

एवं MHFLPROBHW000005018658

. कैप उर्फ कैप आस मोहम्मद

तरलीमा फकरू 3, तालीम (जमानती)

एवं MHFLPROBHW000005012651

किशन लाल गाडरी 2, परासी उर्फ परासी देवी

दिनॉक : 03/09/2025, स्थान : दिल्ली

П

muthoot

मैसर्स प्रोसेस एंड सिस्टम ऑटोमेशन,

भौतिक कब्जा की तिथि :- 30 / 08 / 2025

3. गुरमीत सिंह, 4. हरप्रीत कौर

जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड (पूर्व में जैम एनवायरो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता

के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति देते हैं।

सीआईएनः L93000DL2013PLC247767

पंजीकृत कार्यालयः युनिट नंबर 203, प्लाजा 3, सेंट्रल स्ववायर, बाह्रा हिंदू राव, दिल्ली-110006 ई-मेलः info@gemrecycling.com; वेबसाइटः www.gemrecycling.com; फोनः 011-49088377

जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड की 12वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जेम एनवायरों मैनेजमेंट लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की

12वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्ञल साधनों ("ओएबीएम") के माध्यम से, 12वीं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय संचालित करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय **("एमसीए")** द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपन्न संख्या 09 / 2024 के सहपठित,

इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी अन्य पिछले परिपत्रों के सहपठित (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित) और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('संबी सूचीबद्धता विनियम') के लागू प्रावधानों के सहपठित, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बॉर्ड ("सेबी") द्वारा जारी 03 अक्टबर, 2024 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 के सहपठित, इस संबंध में सेबी द्वारा जारी अन्य पूर्व परिपत्रों के सहपठित (सामृहिक रूप से "सेबी परिपत्रों" के रूप में संदर्भित), जिसके अंतर्गत सदस्यों की सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम

12वीं एजीएम की सूचना सहित वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके नाम **शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025** को व्यवसाय के समापन के समय तक कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं और जिनके ईमेल पते कंपनी / स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("स्काईलाइन"), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए ) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत हैं । चूंकि कंपनी के सभी शेयर डीमैट रूप में हैं, इसलिए सदस्यों से अन्रोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते, बैंक खाते के विवरण और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डीपी के साथ अपडेट / पंजीकृत करें।

सेबी सुचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं. उन्हें एक भौतिक संचार भेजा जाएगा, जिसमें कंपनी की वेबसाइट का वेब-लिंक और सटीक पथ सम्मिलित होगा जहाँ से वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है। वितीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 12वीं एजीएम की सूचना की भौतिक प्रति उन सदस्यों को investors@gemrecycling.com पर भेजी जाएगी जिनके द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें उनके नाम, पैन नंबर, ढीपी आईढी और ग्राहक आईढी, पता और संपर्क विवरण शामिल होंगे। यह कंपनी https://gemrecycling.com/, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') www.evotingindia.com की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होंगे।

अधिनियम की चारा 91 और सेबी सुचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। जिन सदस्यों के नाम **सोमवार, 22 सितंबर, 2025** तक सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सुबी में होंगे, उन्हें ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वे 12वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग या सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 26 सितंबर, 2025 की प्रातः 09:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और 28 सितंबर, 2025 को सांयः 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त हो जाएगी। ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के नोट्स में उन सदस्यों के लिए प्रदान की जाएगी जो डीमैटरियलाइज्ड मोड, भौतिक रूप में शेयरधारक है या जिन्होंने अपनी ई--मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, यह भी सुचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभाश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि सोमवार, 22 सितंबर, 2025 होगी, जो एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन होगी। चुकि कंपनी के सभी शेयर डीमैटरियलाइज्ड रूप में हैं, इसलिए जो सदस्य अपने बैंक खाते के विवरण जोडना, अपडेट करना या सही करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डीपी को सीधे सुचित करें। सदस्यों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके बैंक खाते का आईएफएससी और एमआईसीआर कोड उनके डीपी के साथ सही ढंग से अपडेट किए गए हों। कंपनी का आरटीए लाभांश भूगतान की प्रक्रिया करते समय केवल डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए बैंक विवरण का उपयोग कर सकता है।

कृते जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड तुप्ति गोयल दिनांक: 02 सितंबर, 2025 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थानः दिल्ली आईसीएसआई एम. नंबरः एसीएस73180

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट संख्या 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301

21 / 1 2-13 वाका मौजा औरंगाबाद तहसील होडल

जिला पलवल हरियाणा— 121105 भारत में स्थित है

प्राधिकृत अधिकारी, रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत उधारकर्ता को सचना। एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (आरएचएफपीएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता / उधारकर्ताओं ने आरएचएफपीएल

को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भगतान नहीं किया है और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनिष्पादनक

। परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ता(कों) ने आरएचएफपीएल को अचल संपत्ति / संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

ऋण का विवरण और उधारकर्ता / कों द्वारा आरएचएफपीएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ता(कों) के साथ—साथ आम जनता को भी सूचित

किया जाता है कि आरएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(कों) इस सुचना के 60

(साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने इंगित बकाया राशि चकाने में विफल रहते हैं. तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति ∕ संपत्तियों का लेन–देन न करें। सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्ति / यों) उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम / ऋण खाता संख्या / शाखा तिथि तथा राशि का विवरण निम्न पता धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा 11-08-2025 लैन : LAFADBLPRS000005015365 / शाखा : फरीदाबाद 1. नरेंद्र पुत्र गजराज, 2. इंद्ररा पत्नी गजराज खेवट नं. 73 / 55 खतौनी सं. 108 से 117 दोनों का पता - पताः 1: बदरौला, बदरौला 93 तिगांव, फरीदाबाद, हरियाणा 121101, भारत। रु. 1556627 / मौजा – बदरौला तहसील – दयालपुर फरीदाबाद पताः 2 : खेवट संख्याः 73 / 55 खातोनी सं. 108 से 117 मौजा— बदरौला तहसील दयालपुर हरियाणा - 121004 भारत। लैन : LANODCLPRS000005016368/शाखा : नोएडा क्लस्टर निम्न पता धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंशः 1. सागर चौहान, 2. अतुल पुत्र बिजेंदर, 3. सविता पत्नी बिजेंदर खेवट / खाता नं. 124 / 129 एमयू नं. 125 किला नं. सभी का पता - पता 1 : वार्ड नंबर 00, चोटिया वाला मंदिर के पास, औरंगाबाद, पलवल, रु. 1475950 ∕ -25 / 14 - 13 25 / 23 - 0 एमयू नं. 126 किला नं.

11वीं मंजिल. उत्तरी साइड. आर-टेक पार्क. वेस्टर्न **ReLI**∧NCE (अचल सम्पत्ति हेत्) एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगाँव (पूर्व), मुम्बई-400063

**पता 2 :** खेवट / खाता नं. 124 / 129 एमयू नं. 125 किला नं. 25 / 14— 13 25 / 23— ओएमयू

नं. 126 किला नं. 21/1 2-13 वाका मौजा औरंगाबाद तहसील होडल जिला पलवल पलवल

दिनाँक — 03.09.2025, स्थान — हरियाणा

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहते नोटिस दिए जाते हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे तालिका में उल्लिखित तिथियों को मांग सूचना निर्गत करते हुए उनसे उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि वापस करने का आह्वान किया जाता है।

कर्जदारों तथा जमानती द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण, कर्जदारों तथा जमानती को और जनसामान्य

को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जमानतियों को और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के पावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

ह. कर्जदार∕जमानती तं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	ट्रस्टी के रूप में कार्यरत	बकाया राशि			
		कब्जे की तिथि	अनुबंध की तिथि				
ा. मैसर्स सरस्वती डेकोरेट	र्स- संपत्ति का समस्त भाग, मकान नंबर-	23.04.2024	आरएआरसी	31 मार्च 2024 तक			
कर्जदार	951 (पुराना) नया नंबर-851,		068	₹.38,36,114.77/-			
2. श्री राहुल वर्मा पुत्र	क्षेत्रफल -78.00 वर्ग मीटर, मोहल्ला		ट्रस्ट	(रुपये अड़तीस लाख			
श्री राम प्रकाश (प्रोपराइट	<ul> <li>सराय नसरुल्लाह खां खुर्जा जिला-</li> </ul>	29.08.2025	30.03.2022	छत्तीस हजार एक सौ			
3. श्री राम प्रकाश पुत्र न	थू बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश- 203 131 मे	27.66.2625	56.65.2622	चौदह और			
लाल - (गारंटर∕बंधककर	र्n) स्थित, हरचरण लाल और राम प्रकाश			सतहत्तर पैसे मात्र) उस पर			
4. श्री हरचरण लाल पुत्र	नाथू के नाम पर। सीमाएं पूर्वः दुर्गा प्रसाद			ब्याज और			
लाल - (गारंटर∕बंधककर	<b>र्ग</b> ) का घर, पश्चिमः महिपाल का घर,			01.04.2025 के			
5. श्री उमा शंकर पुत्र मो	हन उत्तरः वर्कशॉप बत्रा, दक्षिणः गर्ली			बाद ऋण खातों पर			
लाल - (गारंटर)	6 चौड़ी			लगने वाले शुल्क			
तिथि : 29.08.2025 (अधिकृत प्राधिकारी) स्थान : दिल्ली रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड							

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE. PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION. DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA



# DAVANGERE SUGAR COMPANY LIMITED

Dayangere Sugar Company Limited ("Company" or "Issuer") was incorporated as 'Dayangere Sugar Company Limited on September 28, 1970, as a public limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Mysore, Bangalore and consequently a certificate of commencement of business dated December 31, 1970, was issued to our Company.

Registered Office: 73/1, Post Box Number 312, Shamanur Road, Davangere - 577 004, Kamataka, India; Tel: +91 7019096626 / 6302999649 Corporate Office: No. 19, Shivashankar Plaza, 3rd floor, Richmond Circle, Lalbagh Road, Bengaluru - 560 027, Karnataka, India;

Tel: +91 80 2227 2183; E-mail: cs@davangeresugars.com; Website: www.davangeresugar.com; Contact Person: Uma Singh, Company Secretary and Compliance Officer; Corporate Identification Number: L37100KA1970PLC001949

OUR PROMOTERS: GANESH SHIVASHANKARAPPA SHAMANUR, REKHA GANESH, ABHIJITH GANESH SHAMANUR. SHAMANUR SHIVASHANKARAPPA MALLIKARJUN, AKHILA G SHAMANUR, ANCHAL G SHAMANUR, SHAMANUR SHIVASHANKARAPPA

ISSUE OF UPTO 48.92,39,202 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 3.05 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 2.05 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 14,921.80 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 13 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 25 FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON AUGUST 6, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 64 OF THE LETTER OF OFFER.

# BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on August 14, 2025. Out of the total 5,401 Applications for 49,44,32,525 Rights Equity Shares, 894 Applications for 34,25,181 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 4,507 for 48,91,46,178 Rights Equity Shares. which was 99.98% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on September 1,2025, in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee of the Company on September 1, 2025 has approved the allotment of 48,91,46,178 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, NIL Rights Equity Shares have been kept in abeyance, All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment

1. Information regarding Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications Received		Equity Shares applied for			Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs)	%	Number	Value (Rs)	%
Direct	3	0.06	14,50,70,861	44,24,66,126.05	29.34	14,50,70,861	44,24,66,126.05	29.66
Non-Renouncees	4,571	84.63	4,30,34,478	13,12,55,157.90	8.70	4,04,12,347	12,32,57,658.35	8.26
Renouncees	827	15.31	30,63,27,186	93,42,97,917.30	61.96	30,36,62,970	92,61,72,058.50	62.08
Total	5,401	100.00	49,44,32,525.00	1,50,80,19,201.25	100.00	48,91,46,178	1,49,18,95,842.90	100.00

2. Rejection Category Application Received Equity Shares applied for Non-ASBA ASBA 894 34.25,181 Total 34,25,181

3. Basis of Allotment:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied	No. of total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
į.		(A)	(B)	(C)	
Direct	3	11,04,20,861	3,46,50,000	14,50,70,861	
Non-Renouncees	4,421	1,85,81,430	2,18,30,917	4,04,12,347	
Renouncees	83	15,19,326	30,21,43,644	30,36,62,970	
Total	4,507	13,05,21,617	35,86,24,561	48,91,46,178	

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, has been completed on September 2, 2025. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on, September 1, 2025 and for refund of funds through NACH/NEFT/RTGS/direct credit were issued to Indusind Bank Limited, the Banker to the Issue, on September 1, 2025. The listing application was filed with BSE on September 1, 2025. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on September 2, 2025. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA accounts" on page 83 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about September 3, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference -SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL& CDSL on September 2, 2025

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by SEBI.

Disclaimer clause of BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by the BSE should not, in any way be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LOF for the full text of the Disclaimer clause of the BSE as provided in "Other Regulatory" and Statutory Disclosures-Disclaimer clause of the BSE" on page 61 of the LOF. Disclaimer clause of NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the

correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LOF for the full text of the Disclaimer clause of the NSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures-

Disclaimer clause of NSE" on page 61 of the LOF. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY

Registrar to the Issue:

INTEGRATED!

Dated: September 2, 2025

Place : Davangere

INTEGRATED REGISTRY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED

No. 30 Ramana Residency, 4th Cross Sampige Road, Malleshwaram, Bengaluru, Karnataka-560 003 Telephone: +91 80-23460815 to 819; E-mail: irg@integratedindia.in; Website; www.integratedregistrv.in;

Contact person: S Giridhar/ K Harish; Investor grievance: irg@integratedindia.in; SEBI Registration No: INR000000544; Validity of Registration: Permanent

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue/Post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, contact number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA. Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form or the plain paper application as the case may be, was submitted by the Investor along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section titled "Terms of the Issue" on page 64 of the LOF.

For Davangere Sugar Company Limited

On behalf of the Board of Directors

Chairman & Managing Director 9

Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and the website of the company at www.davangeresugar.com, Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of a risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in

कथित कर्नदार(रों), सह-कर्नदार(रों) तथा जमानतियों को सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (13) के तहत उपयुंक्त प्रतिभृति आस्ति(यों) को सचन में सन्दर्भित बिक्री, पटटे या अन्यथा विधि से एमएचएफसीएल की पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। रशान : राजस्थान, तिथि : 03 सिनम्बर, 2025 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते मुश्रुट हाउशिंग फाइनेस कम्पनी सिमिटेड

offered or sold in the United States absent registration underthe US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

epaper.jansatta.com

the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be

Shamanur Shivashankarappa Ganesh